



# Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 11-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 12, 2019 (PHALGUNA 21, 1940 SAKA)

## PART-I

### Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 मार्च, 2019

**क्रमांक 2292/2-एल०.-** चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल, संतुष्ट है कि लोक हित में नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक परियोजन अर्थात् निम्बहेड़ा मार्गनर कि (भूमिगत पाईपलाईन द्वारा) कि०मी० 0.000 से 20.474 (पाईपलाईन) परियोजना द्वारा बुडिन, सोहला, ढाढोत, बलाना, राजावास, उष्मापुर व जैरपूर तहसील महेन्द्रगढ़ तथा मांडोला व नांगलमाला उप तहसील सतनाली जिला महेन्द्रगढ़ में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के लिए आवश्यक है तथा भूमि जिसका विवरण निचे दिया गया है जिसके अधीन उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जानी प्रस्तावित की गई जिसमें भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है ।

इसलिए, अब हरियाणा भूमिगत पाईपलाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2008 (2008 का 31) की धारा 3, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निचे विशिष्टियों में वर्णित उक्त भूमि पर उपयोग व अधिकार का अर्जन करने का आशय घोषित करते हैं ।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस समय इस कार्य में लगे जिला राजस्व अधिकारी भूमि अर्जन कलैक्टर नारनौल (महेन्द्रगढ़) व कार्यकारी अभियन्ता म.गढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल महेन्द्रगढ़ को अपने सेवको तथा कर्मकारों सहित प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात अन्य कार्य करने के लिए इस के द्वारा प्राधिकृत करते हैं ।

हरियाणा भूमिगत पाईप लाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2008 (2008 का 31) की धारा 3, उपधारा (1) के अन्तर्गत भूमि दस्तावेज सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव तथा वित्त आयुक्त द्वारा ज्ञापन (मेमो) संख्या 28/15/2019.7IW dated 01/03/2019 के द्वारा अनुमोदित है ।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे नीचे वर्णित भूमि में भूमिगत पाईपलाईन को बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन करने में अपेक्षित यदि कोई हो, इस अधिसूचना के राजपत्र या परिक्षेत्र में परिचालित दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि इनमें से जो भी बाद में हो से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी नारनौल (महेन्द्रगढ़) या कार्यकारी अभियन्ता म.गढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल महेन्द्रगढ़ में लिखित रूप में दायर कर सकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 के ,खण्ड (क) के अधीन हरियाणा सरकार के अधिसूचना तथा आपदा प्रबंध विभाग अधिसूचना क्रमांक एल०ई०जी० 33/2008 दिनांक 06.10.2008 द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारियों के कार्यालय में प्राधिकृत किया है ।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर नारनौल (महेन्द्रगढ़) व कार्यकारी अभियन्ता म.गढ़ नहर जल सेवाएं मण्डल महेन्द्रगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या / खसरा संख्या कनाल / मरला
					कनाल	मरला		
1	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बुडिन	31	17	— 14	14	भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
							15	1 मिन (0-7), 2 मिन (0-9), 3/1 मिन (0-1), 3/2 मिन (0-8), 4 मिन (0-9), 5 मिन (0-9),
							16	1 मिन (0-8), 2 मिन (0-9), 3/1 मिन (0-4.44), 3/2 मिन (0-4.44), 4/1 मिन (0-6), 4/2 मिन (0-2), 5 मिन (0-9), 26 गैर मुमकिन नम्बर मिन (0-2)
							17	1 मिन (0-7), 2/1 मिन (0-4.44), 2/2 मिन (0-4.44), 3 मिन (0-9), 4/1 मिन (0-5), 4/2 मिन (0-4), 5/1/1 मिन (0-6.44), 5/1/2 मिन (0-2),
							18	1/1 मिन (0-9)
							19	4 मिन (0-5), 5 मिन (0-9),
							20	1 मिन (0-9), 2 मिन (0-8), 3/1 मिन (0-6), 3/2 मिन (0-3), 4/1 मिन (0-4), 4/2 मिन (0-5), 5/1 मिन (0-4), 5/2 मिन (0-5)
							21	1/1 मिन (0-9), 3 मिन (0-8), 4 मिन (0-9), 5 मिन (0-9),
							22	1 मिन (0-9), 2/2 मिन (0-2), 2/3 मिन (0-2), 2/1 मिन (0-4.44), 3/1/1 मिन (0-2), 3/1/2 मिन (0-3), 3/2/1 मिन (0-3), 4/1 मिन (0-4), 4/3 मिन (0-4.44), 4/4 मिन (0-5), 5/1/1 मिन (0-2), 5/2 मिन (0-7)
							23	गै0 मु0 नम्बरान 84 मिन (0-1), गै0 मु0 रास्ता 85 मिन (0-1), गै0 मु0 रास्ता 89 मिन (0-4), गै0 मु0 रास्ता 90/8/25 मिन (3-1), गै0 मु0 408 मिन (0-0.44), 416 मिन (0-9), 416 मिन (0-0.44) 417 मिन (0-0.44) 417 मिन (0-0.44)
2.	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	सोहला	29	4	— 13	14	4 मिन (0-4), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-4), 17 मिन (0-11), 24 मिन (0-8)

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या / खसरा संख्या कनाल / मरला
					कनाल	मरला		
		महेन्द्रगढ़	सोहला	29	4 — 13		39	भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
							40	4 / 1 मिन (0-0.44), 5 / 1 मिन (0-9),
							41	1 मिन (0-9), 2 मिन (0-9), 3 मिन (0-9), 4 मिन (0-9), 5 मिन (0-9)
							41	1 मिन (0-2) गैर मुम्किन रास्ता व सड़क 183 मिन (0-1), 330 मिन (0-1)
3	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	ढाढोत	28	11 — 13		9	7 / 1 मिन (0-5), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							24	4 / 2 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14 / 1 मिन (0-8), 17 / 1 / 1 मिन (0-4), 17 / 2 मिन (0-3), 24 / 3 मिन (0-8)
							28	4 / 2 मिन (0-1), 4 / 3 मिन (0-3), 7 / 1 मिन (0-2), 7 / 2 मिन (0-1), 7 / 3 मिन (0-1), 7 / 4 मिन (0-4), 14 / 3 मिन (0-2), 14 / 4 मिन (0-5), 17 / 1 मिन (0-3), 26 गै0मु0 मिन (0-2), 27 गै0मु0 मिन (0-2)
							44	4 / 1 मिन (0-4), 4 / 2 मिन (0-4), 7 / 1 मिन (0-8), 7 / 2 मिन (0-0.44), गै0मु0 न0 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 / 1 मिन (0-2), 24 / 2 मिन (0-4), 27 मिन (0-2)
							47	4 मिन (0-8)
							65	7 मिन (0-10), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							68	4 मिन (0-3) गै0मु0 नम्बरान रास्ता व सड़क 73 मिन (0-3), 111 मिन (1-14), 431 मिन (0-2), 96 / 2 मिन (0-13), 97 मिन (0-1), 98 मिन (0-1)
4	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	बलाना	27	14-15		15	24 मिन (0-2)
							32	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या/खसरा संख्या कनाल/मरला
					कनाल	मरला		
								भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
		महेन्द्रगढ़	बलाना	27	14-15		41	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							59	4 मिन (0-8), 6 मिन (0-4), 7 मिन (0-2), 14/1 मिन (0-4), 14/2 मिन (0-4), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							70	4 मिन (0-7), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-8), 17/1 मिन (0-4), 17/2 मिन (0-4), 24 मिन (0-9)
							89	4/1 मिन (0-2), 4/2 मिन (0-4), 4/3 मिन (0-2), 7 मिन (0-9), 14 मिन (0-9), 24 मिन (0-8), 17 मिन (0-8)
							119	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-7), 14 मिन (0-8), 17/1 मिन (0-1), गै0मु0 नम्बरान 17/2 मिन (0-7), 24/2 मिन (0-4), 24/3 मिन (0-4)
							102	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 24 मिन (0-8), 17 मिन (0-7)
							131	4/3 मिन (0-8), 7/1 मिन (0-3), गै0मु0 नम्बरान रास्ता व सडक 177 मिन (0-8), 174/1/3 मिन (0-1), 182/1/2 मिन (0-1), 227 मिन (0-1), 214/3 मिन (0-1)
5	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	राजावास	26	21	— 13	13	16/2/1 मिन (0-0.06), 16/2/2 मिन (0-8), 17 मिन (0-0.33), 25/1/1 मिन (0-0.44), 25/1/2 मिन (0-0.28), 25/2/2 मिन (0-7) 25/2/1 मिन (0-1)
							26	5/2 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8),
							2	17 मिन (0-3), 24 मिन (0-7)
							28	5 मिन (0-7), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25/2 मिन (0-8)

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या/खसरा संख्या कनाल/मरला
					कनाल	मरला		
								भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
		महेन्द्रगढ़	राजावास	26	21	— 13	41	5/1/1 मिन (0-3), 5/1/2 मिन (0-0.44), 5/2/1 मिन (0-0.44), 5/2/2 मिन (0-3), 6 मिन (0-8), 15/1 मिन (0-3), 15/2 मिन (0-5), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							44	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							55	5 मिन (0-11), 6 मिन (0-2), 7 मिन (0-10), 13 मिन (0-8), 14 मिन (0-3), 18 मिन (0-5), 19 मिन (0-6), 21 मिन (0-4), 22 मिन (0-7)
							59	5 मिन (0-2), 6 मिन (0-11), 7 मिन (0-0.33), 14 मिन (0-7), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							60	1 मिन (0-9)
							72	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-9), 14 मिन (0-6), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							76	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-8), 24 मिन (0-6) गै0 मु0 नम्बरान रास्ता व सडक 125 मिन (0-8), 129 मिन (0-1), 136 मिन (0-1), 346 मिन (0-1), 356 मिन (0-0.44), 363 मिन (0-1), 369 मिन (0-0.44), 139 मिन (0-1), 182 मिन (0-15), 189 मिन (0-1), 328 मिन (3-5)
6.	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	उष्मापुर	17	5	— 14	2	24 मिन (0-4)
							9	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14/2 मिन (0-7)
							12	7/1 मिन (0-8), 14/2 मिन (0-8), 17/1 मिन (0-8), 24 मिन (0-8)
							25	4 मिन (0-8), 7 मिन (0-8), 14 मिन (0-8), 17 मिन (0-5) गै0 मु0 नम्बरान रास्ता व सडक 95 मिन (1-5), 196 मिन (0-1)

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या / खसरा संख्या कनाल / मरला
					कनाल	मरला		
								भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
7.	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	जैरपूर	16	13 — 9		29	6 मिन (0-2), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							36	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							56	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							63	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-7), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							80	4 मिन (0-3), 5 मिन (0-11), 7 मिन (0-9), 8/1 मिन (0-5), 12 मिन (0-7), 13 मिन (0-7), 19 मिन (0-4), 20 मिन (0-9), 21 मिन (0-2)
							81	25 मिन (0-11)
							86	16 मिन (0-8), 17 मिन (0-0.33), 25 मिन (0-3)
							87	3 मिन (0-2), 4 मिन (0-11), 5 मिन (0-0.50), 8 मिन (0-9), 9 मिन (0-4), 11 मिन (0-6), 12 मिन (0-7), 12 मिन (0-5) गै0 मु0 नम्बरान रास्ता व सड़क 124 मिन (0-1), 126 मिन (0-0.44)
8	महेन्द्रगढ़	सतनाली	माण्डोला	15	18 — 17		2	24 मिन (0-2)
							7	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15/1 मिन (0-1)
							14	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)
							21	5 मिन (0-8), 6 मिन (0-8), 15 मिन (0-8), 16/1 मिन (0-13), 16/2 मिन (0-0.44), 25/1 मिन (0-0.11), 25/2 मिन (0-0.33)
							35	5/2 मिन (0-7), 6/1 मिन (0-7), 15 मिन (0-8), 16 मिन (0-8), 25 मिन (0-8)

क्रमांक	जिला	तहसील	गांव	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल		मुस्ततिल संख्या	किला संख्या / खसरा संख्या कनाल / मरला
					कनाल	मरला		
								भूमि की एक पटी 11 फीट की चौड़ाई में जो कि सजरा प्लान में दर्शाया गया है और जो कि निम्नलिखित मुरबा नं. व किला नं. से गुजरती है।
		सतनाली	माण्डोला	15	18 – 17		41	5 मिन (0–8), 6 / 1 मिन (0–2), 6 / 2 मिन (0–6), 15 मिन (0–8), 16 / 1 मिन (0–0.44), 16 / 2 मिन (0–8), 25 मिन (0–8)
							56	5 मिन (0–7), 6 मिन (0–8), 15 मिन (0–8), 16 मिन (0–8), 25 / 1 मिन (0–4), 25 / 2 मिन (0–3)
							61	5 मिन (0–8), 6 मिन (0–8), 15 मिन (0–7)
							75	25 मिन (0–8)
							80	5 मिन (0–8), 6 मिन (0–8), 15 / 1 मिन (0–2), 15 / 2 मिन (0–6), 16 मिन (0–8), 25 मिन (0–7)
							87	5 / 3 मिन (0–8), 6 / 1 मिन (0–6) गै0 मु0 नम्बरान रास्ता व सडक 104 मिन (0–1), 111 मिन (0–2), 112 मिन (0–1), 291 मिन (1–3), 314 मिन (0–1), 312 मिन (0–1), 315 मिन (0–1), 113 मिन (0–2), 318 मिन (2–7), 330 मिन (0–1)
9	महेन्द्रगढ़	सतनाली	नांगल–माला	14	6 – 11		71	16 मिन (0–7), 25 मिन (0–3) गै0 मु0 नम्बरान रास्ता व सडक 151 मिन (0–1), 152 मिन (1–2), 153 मिन (0–11), 154 मिन (0–1), 159 मिन (2–12), 160 मिन (1–17), 161 मिन (0–4), 173 मिन (0–2) 322 मिन (0–1)
कुल एरिया								114 कनाल 19 मरला
कुल एकड़								14.37

हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार

(हस्ता०)...  
 अधीक्षक अभियन्ता,  
 जे०एल०एन० जल सेवाएं परिमण्डल,  
 नारनौल।

## HARYANA GOVERNMENT

## IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

## Notification

The 1st March, 2019

**No. 2292/2-L.**— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that the land specified below is needed by the Government at public expenses, for a public interest for carriage of water namely Extension of Nimbhera Minor (Through Underground Pressurized Pipeline) from kilometer 0.000 to 20.474 off taking from D/S Pump House MD-III at kilometer 18.220 of Mahendergarh Distributary in villages Budeen, Solha, Dhadhot, Balana, Rajawas, Ushmapur and Zeerapur of Tehsil and District Mahendergarh and villages Mandola and Nangal Mala of Tehsil Satnali District Mahendergarh, and it is necessary to Acquisition of right of User in Land, of which the descriptions is given below which the said underground pressurised pipe line is to be laid.

Now, there for, in exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Haryana under pipe lines (Acquisition of right of User in Land), Act, 2008 (31 of 2008), the Governor of Haryana here notify its intention to acquire the right of user over the said Land described with specifications below.

In exercise of powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana here by authorizes the District Revenue Officer's-cum-Land Acquisition Collector, Mahendergarh and Executive Engineer, Mahendergarh Canal Water services Division, Mahendergarh with their servants and work men, for the time being engaged in the under taking, to enter upon and survey the land in the locality and to all other Act's required on permitted by that section.

Land document under Sub-section (1) of Section 3 of the Haryana under pipe lines (Acquisition of right of user in land), Act 2008 (31 of 2008) has been approved from the Financial Commissioner and Principal Secretary to the government Irrigation Department Haryana, Chandigarh *vide* Memo No. 28/15/2019-71-W dated Chandigarh the 1st March 2019.

Any person interested in land described below, who has any objection to the acquisition of the right of user for laying of the under pipe line, may, with in a period of twenty one day's from the publication of this notification in the Official Gazette or in two daily newspaper's circulating in the locality, of which at least one shall in the regional language or publicity in the locality whichever is later, file an objection, if any, in writing before the District Revenue Officer, Mahendergarh who is authorized as the competent authority by the State Government under clause(a) I of Section 2 of the said Act, notified *vide* Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, Notification No. Leg 33/2008 Dated 06 October 2008.

The plan of the land may be inspected in the office the District Revenue Officer-Cum- Land Acquisition Collector, Mahendergarh or in the office of Executive Engineer Mahendergarh Canal Water services Division Mahendergarh.

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	M/Garh	Mahendergarh	Budeen	31	17-14	14	1 Min (0-7), 2 Min (0-9), 3/1 Min (0-1), 3/2 Min (0-8), 4 Min (0-9), 5 Min (0-9)
						15	1 Min (0-8) 2 Min (0-9), 3/1 Min (0-4.44), 3/2 Min (0-4.44), 4/1 Min (0-6), 4/2 Min (0-2), 5 Min (0-9) 26 Gair Mumkin No. (0-2)
						16	1 Min (0-7), 2/1 Min (0-4.44), 2/2 Min (0-4.44), 3 Min (0-9), 4/1 Min (0-5), 4/2 Min (0-4), 5/1/1 Min (0-6.44), 5/1/2 Min (0-2).



Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
		Mahendergarh	Budeen	31	17-14	17	1/1 Min (0-9)
						18	4 Min (0-5), 5 Min (0-9).
						19	1 Min (0-9), 2 Min (0-8), 3/1 Min (0-6), 3/2 Min (0-3), 4/1 Min (0-4), 4/2 Min (0-5), 5/1 Min (0-4), 5/2, Min (0-5).
						20	1/1, Min (0-9) 3, Min (0-8), 4, Min (0-9), 5, Min (0-9)
						21	1, Min (0-9), 2/2, Min (0-2), 2/3, Min (0-2), 2/1, Min (0-4.44), 3/1/1, Min (0-2), 3/1/2, Min (0-3), 3/2/1, Min (0-3), 4/1, Min (0-4), 4/3, Min (0-0.44), 4/4, Min (0-5), 5/1/1, Min (0-2), 5/2, Min (0-7).  Gair Mumkin Numbers: 84 Min (0-1), GRM Rasta 85 Min (0-1), GRM Rasta: 89 Min (0-4), GRM Rata 90/8/25 Min (3-01) GRM, 408 Min (0-0.44)- 416 Min (0-0.44) 416 Min (0-9)- 417 Min (0-0.44) 417 Min (0-0.44) GRM Rasta
2.	M/Garh	Mahendergarh	Sohla	29	4 – 13	14	4, Min (0-4), 7 Min (0-8), 14 Min (0-4), 17 Min (0-11), 24 Min (0-8),
						39	4/1 Min (0-0.44) 5/1 Min (0-9).
						40	1 Min (0-9), 2 Min (0-9), 3 Min (0-9), 4 Min (0-9), 5 Min (0-9),
						41	1 Min (0-2).  Gair Mumkin Rasta & Road 183 Min (0-1) 330 Min(0-1)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
3.	M/Garh	Mahendergarh	Dhadhot	28	11 -13	9	7/1 Min (0-5), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						24	4/2 Min (08), 7 Min (0-8), 14/1 Min (0-8), 17/1/1 Min (0-4), 17/2 Min (0-3) 24/3 Min (0-8)
						28	4/2 Min (0-1), 4/3 Min (0-3), 7/1 Min (0-2), 7/2 Min (0-1), 7/3 Min (0-1), 7/4 Min (0-4), 14/3 Min (0-2), 14/4 Min (0-5), 17/1 Min (0-3), 26 Min (0-2) GRM, 27 Min (0-2) GRM
						44	4/1 Min (0-4), 4/2 Min (0-4), 7/1 Min (0-8), 7/2, Min (0-0.44), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24/1 Min (0-2), 24/2 Min (0-4), 27 Gair Mumkin (0-2).
						47	4 Min (0-8)
						65	7 Min (0-10), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8).
						68	4 Min (0-3) Gair Mumkin Numbers Rasta & Road, 73 Min (0-3) 111 Min (1-14) 431 Min (0-2) 96/2 Min (0-13) 97 Min (0-1) 98 Min (0-1)
4.	M/Garh	Mahendergarh	Balana	27	14 - 15	15	24 Min (0-2)
						32	4 Min (0-8), 7(0-8), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						41	4 Min (0-8), 7 Min (0-8), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						59	4 Min (0-8), 6 Min (0-4), 7 Min (0-2), 14/1 Min (0-4), 14/2 Min (0-4), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
		Mahendergarh	Balana	27	14 - 15	70	4 Min (0-7), 7 Min (0-8), 14 Min (0-8), 17/1 Min (0-4), 17/2 Min (0-4), 24 Min (0-9)
						89	4/1 Min (0-2), 4/2 Min (0-4), 4/3 Min (0-2), 7 Min (0-9), 14 Min (0-9), 24 Min (0-8), 17 Min (0-8)
						119	4 Min (0-8), 7 Min (0-7), 14 Min (0-8), 17/1 Min (0-1), 17/2 Min (0-7), 24/2 Min (0-4), 24/3 Min (0-4)
						102	4 Min (0-8), 7 Min (0-8), 24 Min (0-8), 17 Min (0-7)
						131	4/3 Min (0-8), 7/1 Min (0-3)  Gair Mumkin No. Rasta & Road, 177 Min (0-8) - 174/1/3 Min (0-1) 182/1/2 Min (0-1) 227 Min (0-1) 214/3 Min (0-1).
5.	M/Garh	Mahendergarh	Rajawas	26	21 - 13	13	16/2/1 Min (0-0.06), 16/2/2 Min (0-8), 17 Min (0-0.33), 25/1/1 Min (0-0.44), 25/1/2 Min (0-0.28), 25/2/2 Min (0-7), 25/2/1 Min (0-1)
						26	5/2 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8)
						2	17 Min (0-3), 24 Min (0-7)
						28	5 Min (0-7), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25/2 Min (0-8)
						41	5/1/1 Min (0-3), 5/1/2 Min (0-0.44), 5/2/1 Min (0-0.44), 5/2/2 Min (0-3), 6 Min (0-8), 15/1 Min (0-3), 15/2 Min (0-5), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
		Mahendergarh	Rajawas	26	21 -13	44	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16 (0-8), 25 Min (0-8)
						55	5 Min (0-11), 6 Min (0-2), 7 Min (0-10), 13 Min (0-8), 14 Min (0-3), 18 Min (0-5), 19 Min (0-6), 21 Min (0-4), 22 Min (0-7)
						59	5 Min (0-2), 6 Min (0-11), 7 Min (0-0.33), 14 Min (0-7), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						60	1 Min (0-9).
						72	4 Min (0-8), 7 Min (0-9), 14 Min (0-6), 17 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						76	4 Min (0-8), 7 Min (0-8), 14 Min (0-8), 17 Min (0-8), 24 Min (0-6)  Gair Mumkin No. Rasta & Road. 125 Min (0-8) 129 Min (0-1) 136 Min (0-1) 346 Min (0-1) 356 Min (0-0.44) 363 Min (0-1) 369 Min (0-0.44) 139 Min (0-1) 182 Min (0-15) 189 Min (0-1) 328 Min (3-5)
6.	M/Garh	M/Garh	Ushmapur	17	5-14	2	24 Min (0-4).
						9	4 Min (0-8), 7 Min (0-8), 14/2 Min (0-7).
						12	7/1 Min (0-8), 14/2 Min (0-8), 17/1 Min (0-8), 24 Min (0-8)
						25	4 Min (0-8), 7 Min (0-8), 14 Min (0-8), 17 Min (0-5).  Gair Mumkin No. Rasta & Road: 95 Min (1-5) 196 Min (0-1).

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
7.	M/Garh	M/Garh	Zerpur	16	13-9	29	6 Min (0-2), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8)
						36	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8).
						56	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8)
						63	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-7), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8)
						80	4 Min (0-3), 5 Min (0-11), 7 Min (0-9), 8/1 Min (0-5), 12 Min (0-7), 13 Min (0-7), 19 Min (0-4), 20 Min (0-9), 21 Min (0-2)
						81	25 Min (0-11).
						86	16 Min (0-8), 17 Min (0-0.33), 25 Min (0-3).
						87	3 Min (0-2), 4 Min (0-11), 5 Min (0-0.50), 8 Min (0-9), 9 Min (0-4), 11 Min (0-6), 12 Min (0-7), 20 Min (0-5).  Gair Mumkin No. Rasta & Road. 124 Min (0-1) 126 Min (0-0.44)
8.	M/Garh	Sub Teh. Satnali	Mandola	15	18-17	2	24 Min (0-2).
						7	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15/1 Min (0-1).
						14	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8).
						21	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16/1 Min (0-13), 16/2 Min (0-0.44), 25/1 Min (0-0.11), 25/2 Min (0-0.33)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
		Sub Teh. Satnali	Mandola	15	18-17	35	5/2 Min (0-7), 6/1 Min (0-7), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25 Min (0-8).
						41	5 Min (0-8), 6/1 Min (0-2), 6/2 Min (0-6), 15 Min (0-8), 16/1 Min (0-0), 16/2 Min (0-8), 25 Min (0-8).
						56	5 Min (0-7), 6 Min (0-8), 15 Min (0-8), 16 Min (0-8), 25/1 Min (0-4), 25/2 Min (0-3).
						61	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15 Min (0-7).
						75	25 Min (0-8).
						80	5 Min (0-8), 6 Min (0-8), 15/1 Min (0-2), 15/2 Min (0-6), 16 Min (0-8), 25 Min (0-7).
						87	5/3 Min (0-8) 6/1 Min (0-6).  Gair Mumkin No. Rasta & Road. 104 Min (0-1) 111 Min (0-2) 112 Min (0-1) 291 Min (1-3) 314 Min (0-1) 312 Min (0-1) 315 Min (0-1) 113 Min (0-2) 318 Min (2-7) 330 Min (0-1).
9.	M/Garh	Sub Teh. Satnali	Nangal Mala	14	6 -11	71	16 Min (0-7), 25 Min (0-3)  Gair Mumkin No. Rasta & Road 151 min (0-1) 152 Min (1-2) 153 Min(0-11) 154 Min (0-1) 159 Min (2-12)

Sr. No.	District	Tehsil	Village	Hadbast No.	Area Kanal-Marla	Mustil	Killa No./Khasra No. (Kanal-Marla)
	1	2	3	4	5	6	7
							160 Min(1-7) 161 Min (0-4) 173 Min (0-2) 322 Min (0-1)
<b>Grand Total Area</b>							<b>Kanal 114 - Marla 19 Acre: 14.37</b>

By Order of Governor of Haryana

(Sd/-) ...,  
Superintending Engineer,  
JLN Water Services Circle,  
Narnaul.